

RBI Assistant Mains Reasoning Daily Mock

Q1. कथन: विश्व बैंक ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए फंड को दोगुना करके \$ 200 बिलियन कर दिया है, जो व्यापक वैश्विक समुदाय को ऐसा करने के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है।

दिए गए कथन से निम्नलिखित में से क्या पूर्वनिर्धारित किया जा सकता है?

पूर्वधारणार्थ: I. जलवायु परिवर्तन मानवता का एक सबसे बड़ा पर्यावरणीय खतरा है और यह दुनिया भर में लोगों और पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है।

II. जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को गरीबी, भ्रष्टाचार और वित्तीय संकट की तुलना में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसके लिए अधिक धन की आवश्यकता है।

- (a) केवल II
- (b) या तो I या II
- (c) केवल I
- (d) न तो I न ही II
- (e) दोनों I और II

Q2. कथन I- भारतीय सेना ने लड़ाई में महिलाओं की भर्ती की योजना बनाई है, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में परिचालनों के संदर्भ में, सेना प्रमुख जनरल बिपीन रावत ने भारतीय सैन्य अकादमी (IMA) में पासिंग आउट परेड में कहा।

कथन II- कई बार जम्मू कश्मीर में जवान महिलाओं के साथ वार्तालाप करने में संकोच करते हैं, जब उनका महिलाओं से सामना होता है।

कथन III- कश्मीर में स्थिति कई दशकों से अस्थिर रही है, पिछली गर्मियों से उससे भी बदतर है। पिछले सिर्फ चार दिनों में, सेना ने 13 संदिग्ध आतंकियों को मार दिया है।

निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त कथनों में से कारण/प्रभाव हो सकता है?

- (a) कथन II कारण होगा तथा कथन I और III इसके प्रभाव होंगे।
- (b) कथन II और III कारण होंगे तथा I इसका प्रभाव होगा।
- (c) कथन III कारण है और कथन I इसका प्रभाव है एवं कथन II स्वतंत्र कारण का प्रभाव है।
- (d) कथन II कारण है और कथन I इसका प्रभाव है एवं कथन III स्वतंत्र कारण का प्रभाव है।
- (e) कथन III कारण है और कथन II इसका प्रभाव है एवं कथन I स्वतंत्र कारण का प्रभाव है।

Q3. कथन :- रॉयल परिवार में कोई भी अपनी पसंद से राजा या रानी नहीं बनना चाहता है, प्रिंस हैरी ने एक यूएस पत्रिका को बताया, उनका कहना है कि "हम सही समय पर अपने कर्तव्यों को पूरा करेंगे"। उन्होंने कहा, "क्या कोई ऐसा शाही परिवार है जो राजा या रानी बनना चाहता है? मुझे ऐसा नहीं लगता" उन्होंने न्यूजवीक से कहा-

निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त कथन के अनुरूप नहीं है?

(I) उन्होंने कहा कि राजपरिवार इसे "लोगों के अधिक अच्छे के लिए" कर रहे थे।

(II) हैरी, जिन्होंने हाल ही में कहा था कि पेरिस में एक कार दुर्घटना में उनकी मां की मौत का सामना करने के लिए उन्हें परामर्श मिला था, ने कहा: "मेरी मां की अभी अभी मृत्यु हुई थी, और मुझे उनके ताबूत के पीछे लंबी दूरी तक चलना पड़ा हजारों लोग मुझे देख रहे थे, जबकि लाखों लोगों ने टीवी पर मुझे देखा।

(III) उन्होंने अपनी "अविस्मरणीय" दादी को, युवा रॉयल्स को अपने तरीके से चीजों को करना सिखाने के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की।

- (a) केवल (I)
- (b) केवल (II)
- (c) केवल (III)
- (d) दोनों (II) और (III)
- (e) इनमें से कोई नहीं

Q4. भारतीय पुलिस ने चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट फाइनल के दौरान कथित तौर पर "भारत विरोधी और समर्थक पाकिस्तान" के नारे चिल्लाने के लिए गिरफ्तार 15 मुस्लिम लोगों के खिलाफ देशद्रोह के आरोप को हटा दिया है।

इनमें से कौन सा पुलिस बल द्वारा गिरफ्तार लोगों के खिलाफ देशद्रोह के आरोपों को हटाने का कारण हो सकता है?

- (I) उनके खिलाफ देशद्रोह का आरोप साबित करना मुश्किल था।
 - (II) उनमें से कोई भी एक आपराधिक पृष्ठभूमि से नहीं था।
 - (III) देशद्रोह का आरोप वाले लोगों को अपने पासपोर्ट देने पड़ते हैं, वे सरकारी नौकरियों के लिए पात्र नहीं होते हैं, उन्हें न्यायालय में जब आवश्यक हो उपस्थित होना पड़ता है, और कानूनी शुल्क पर पैसा खर्च करना पड़ता है।
- (a) केवल (I)
 - (b) केवल (II)
 - (c) दोनों (I) और (II)
 - (d) दोनों (II) और (III)

TEST SERIES
Bilingual
Video Solutions



**RBI ASSISTANT
MAINS**

25 Total Tests | eBooks

(e) इनमें से कोई नहीं

Q5. कथन:- कुछ वर्षों में गर्मियों के पहले दिन सबसे खराब गर्मी दक्षिण-पश्चिम अमेरिका में देखी गई है, तापमान उच्चतर पर पहुंच गया है, जो कुछ रेगिस्तानी शहरों में 120 फेरेनाइट या इससे अधिक है। एरिजोना, नेवादा और कैलिफोर्निया में मंगलवार को भीषण तापमान देखा, क्योंकि शोधकर्ताओं का कहना है कि इस तरह की घातक गर्मी तरंगें अधिक बार बढ़ने वाली थीं। यह पूर्वानुमान अधिकतम 120 फेरेनाइट (लगभग 49C) का लगाया गया था- अचंभे में, जो कि शहर में दो से अधिक दशकों में नहीं देखा गया।

उपर्युक्त कथन में विनिर्दिष्ट कड़ी गर्मी का निम्न में से क्या नतीजा हो सकता है?

(I) इससे आसपास के क्षेत्रों के जंगलों में दावानल लग सकती है।

(II) इस गर्मी की लहर से प्रभावित शहरों में अंधकार हो सकता है।

(III) स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश रद्द हो सकता है।

(a) केवल (III)

(b) केवल (II) और (I)

(c) केवल (III) और (I)

(d) दोनों (II) और (III)

(e) सभी (I), (II) और (III)

Q6. कथन- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सरकार के संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (RNTCP) के तहत तपेदिक रोगियों को इलाज का लाभ उठा सकने में सक्षम बनाने के लिए आधार को अनिवार्य दस्तावेज बना दिया है।

(I) कोई व्यक्ति आधार कार्ड के बिना टीबी का इलाज नहीं ले सकता।

(II) टीबी से पीड़ित रोगियों को उनके आधार कार्ड बनने तक केंद्र सरकार की योजना के तहत नकद लाभ नहीं मिल पाएगा।

(III) इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को, इस प्रकार, आधार संख्या के होने का प्रमाण प्रस्तुत करने या आधार प्रमाणीकरण से गुजरना आवश्यक है।

(IV) विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने हाल ही में कहा था कि भारत में तपेदिक महामारी पहले की तुलना में "बड़ी" थी।

निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए कथन का परिणाम हो सकता है?

(a) केवल II

(b) केवल I और III

(c) केवल II और III

(d) केवल I

(e) इनमें से कोई नहीं

Q7. कथन- पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई वाली सरकार ने नर्सरी से PhD तक सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है।

(I) अच्छा सामाज कल्याण कानून है। इसकी शुरुआत लड़कियों के लिए की गई है, क्योंकि वे अपेक्षाकृत वंचित हैं। उम्मीद है कि जल्द ही सभी के लिए मुफ्त शिक्षा का अनुसरण किया जाएगा।

(II) यह लिंग-पक्षपाती है, जैसे कि एक गरीब या औसत व्यक्ति अपने बेटे को उच्च शिक्षा देना चाहता है तो उसे उच्चतर फीसों का भुगतान करना पड़ता है। यदि आप बिना किसी परिस्थिति के कोई कानून/योजना/अधिनियम पेश करते हैं, तो उसे किसी विशेष लिंग का समर्थन नहीं करना चाहिए, यदि वे वास्तव में शिक्षा के बारे में चिंतित हैं।

(III) लिंग के आधार पर एक गरीब या औसत व्यक्ति के बीच अंतर नहीं किया जाना चाहिए। एक गरीब लड़के या पुरुष को भी मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए।

निम्नलिखित में से कौन-सा तर्क दिए गए कथन को मजबूत बनाता है?

(a) केवल II

(b) केवल III

(c) केवल II और III

(d) केवल I और II

(e) उपर्युक्त सभी

Q8. कथन:- कुछ लोग धीरे-धीरे शुरू करना चाहते हैं, जब वे एक नया खेल शुरू करते हैं। अन्य 49-बार अपराजित चैंपियन से टकराना पसंद करते हैं। इसी तरह मिश्रित मार्शल आर्ट चैंपियन कॉनर मैकग्रेगर इस अगस्त ऐसा करने की योजना बना रहे हैं, जब वह मुक्केबाजी के रिंग में फ्लॉइड मेवेदर के खिलाफ सामना करते हैं। एक गिमिक? संभवतः, एक ब्लॉकबस्टर मनी मेकर? लगभग निश्चित रूप से।

निम्नलिखित में से कौन सा अनुमान उपर्युक्त कथन से लगाया जा सकता है?

(I) एक नया खेल खेलना उचित नहीं है।

(II) गिमिक खेल आयोजन लोगों के ध्यान को आकर्षित करने में सक्षम होता है।

(III) फ्लोयड के खिलाफ मैकग्रेगर के जीतने की अत्यधिक संभावना न के बराबर है।

(a) केवल (III)

(b) केवल (I) और (II)

(c) केवल (III) और (I)

(d) दोनों (II) और (III)

(e) सभी (I), (II) और (III)

Q9. कथन- बांग्लादेश ने हाल ही में नकली भारतीय मुद्रा के केंद्र के रूप में पाकिस्तान की जगह ली है।

निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प दिए गए कथन का खंडन करता है?

(I) स्पष्टतः, बांग्लादेश से भारत में आने वाले गैर-कानूनी नोटों का महत्व कम हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि उस देश में नकली मुद्राओं के उत्पादन केन्द्रों पर प्रहार हुआ है।

(II) सरकारी आँकड़े बताते हैं, कि बांग्लादेश 2,000 रु. के नकली नोटों के उत्पादन और तस्करी के एक स्रोत के रूप में उभर रहा है।

(III) पहले, पाकिस्तान और बांग्लादेश में निर्मित नकली मुद्रा की तस्करी सीमावर्ती राज्यों- जम्मू, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय, में स्थित 13 सीमा प्रदेशों के माध्यम से होती थी।

(a) केवल (II)

(b) केवल (II) और (I)

(c) केवल (III) और (II)

(d) केवल (I)

(e) इनमें से कोई नहीं

Q10. कथन- कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि "विभाजन और धुवीकरण की राजनीति" लोगों को अलग कर रही थी, इस प्रकार उन्होंने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों और कश्मीर को लेकर उसकी आलोचना की।

निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए कथन को प्रमाणित करता है?

(I) उन्होंने हाल ही में लिंगिंग के दौर में, यह कहते हुए कि धुवीकरण की राजनीति बहुत खतरनाक थी, सरकार की आलोचना भी की।

(II) जब कांग्रेस सत्ता में आई तो आतंकवाद कश्मीर में बड़े पैमाने पर था, "जब हमारी सत्ता समाप्त हुई तो वहा शांति थी, हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी थी।" गाँधी ने कहा।

(III) मोदी सरकार के विमुद्रीकरण के फैसले तथा वस्तु एवं सेवा कर (GST) के शीघ्रता से कार्यान्वयन ने विकास को मुश्किल में डाल दिया है, उन्होंने कहा।

(a) केवल (III)

(b) केवल (II)

(c) केवल (I)

(d) दोनों (I) और (III)

(e) इनमें से कोई नहीं

BOOKS



Visit: publications.adda247.com & store.adda247.com
 For any information, mail us at publications@adda247.com